

**MAYUR UNIQUOTERS LIMITED**

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2025-26/11**Date: May 09, 2025**

To,

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001
(Maharashtra)
(Scrip Code: BSE- 522249)

National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051
(Maharashtra)
(Trading Symbol: MAYURUNIQ)

Subject: Newspaper advertisement of extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and financial year ended on March 31, 2025.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement of extract of the audited Standalone and Consolidated Financial Results for quarter and financial year ended on March 31, 2025 published in the English and Vernacular Language newspaper on May 09, 2025.


You are kindly requested to take the same on record.

Thanking you,

For Mayur Uniquoters Limited

Suresh Kumar Poddar
Chairman and Managing Director & CEO
DIN : 00022395

A Texture For Every Idea

**Correspondance Address:**

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

Regd. Office & Works: Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com

YoY
Income
up 10%

YoY
PBT up
26%

YoY
PAT
up 22%



Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaitpura, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.
Tel: 91-1423-224001 **Fax:** 91-1423-224420 **CIN No.** L18101RJ1992PLC006952 **E-Mail:** secr@mayur.biz

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2025

(Rs. in Lakhs, except stated)

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	26,211.04	21,161.76	22,757.48	92,086.25	83,482.67
2	Operating Profit (PBITD)	6,456.78	4,998.02	4,799.03	23,180.51	19,068.12
3	Net Profit/ (Loss) for the period Before Tax	5,694.84	4,239.94	3,993.01	20,128.36	15,881.97
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	4,150.23	3,056.76	3,221.54	14,928.94	12,246.83
5	Total Comprehensive Income for the period	4,183.32	3,090.10	3,149.67	15,091.73	12,226.97
6	Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)	2,172.63	2,172.63	2,197.63	2,172.63	2,197.63
7	Other Equity (Reserves)	-	-	-	93,384.56	84,512.42
8	Earning Per Share: - Basic (in Rs.) - Diluted (in Rs.)	9.54 9.54	7.05 7.05	7.32 7.32	34.18 34.18	27.86 27.86

Notes: *Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Turnover	21,418.09	19,492.61	21,610.22	82,020.64	76,424.04
2	Operating Profit (PBITD)	5,620.28	4,859.58	4,765.94	22,043.75	18,659.17
3	Profit before Tax	4,865.21	4,107.93	3,971.16	19,019.54	15,510.46
4	Profit after Tax	3,501.52	2,984.16	3,198.44	14,100.87	11,954.78

*The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year Ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Quarterly and Yearly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com, and also on Company's website at www.mayuruniquoters.com

Place: Jaipur
Date: May 08, 2025



For and on behalf of the Board of Directors
Suresh Kumar Poddar
Chairman & Managing Director & CEO
DIN-00022395





Hero Fincorp Limited

(CIN: U74899DL1991PLC046774)
Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Corp. Office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Email: investors@herofincorp.com **Phone No.:** 011-49487150
Website: www.herofincorp.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that Hero Fincorp Limited ("the Company") has, on Thursday, May 08, 2025, completed the dispatch of Notice to its all eligible Members, under Section 108 and 110 and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, read with General Circulars Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 3/2022, 11/2022, 09/2023 and 09/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021, December 08, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively ("MCA Circulars"), and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time), sent the electronic copies of Notice of Postal Ballot along with Explanatory Statement to all members of the Company, who have registered their e-mail address with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. MUFG Intime India Private Limited as on Friday, May 02, 2025 being the cut-off date, for seeking the consent of the members by way of Special Resolutions for the business set out in the Notice dated April 29, 2025, to be transacted by postal ballot by voting through electronic means ("remote e-voting") only.

In case a member desires to exercise vote by using e-voting as stipulated under Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting platform for the above through MUFG Intime India Private Limited ("RTA"). The procedure for e-voting is available on the e-voting website: <https://instavote.linkintime.co.in> and notice of Postal Ballot.

In accordance with the provisions of MCA Circulars, Members can vote only through remote e-voting process. Members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday, May 02, 2025 which is the cut-off date may cast their vote through e-voting only and a person who is not a Member as on the Cut-off date shall treat this Notice for information purpose only. The physical copies of the Notice, postal ballot forms and pre-paid Business Reply Envelopes are not being sent to Members for this Postal Ballot. Members are requested to provide their assent and dissent through e-voting only.

The Company has appointed MUFG Intime India Private Limited ("RTA") for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. The members are requested to note that e-voting will commence on Friday, May 09, 2025 at 09:00 a.m. onwards and will continue till 5:00 p.m. on Saturday, June 07, 2025. The e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Saturday, June 07, 2025. The voting by electronic means shall not be allowed beyond said date.

Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement including e-voting instructions can be downloaded from the "investors section" on Company's website: www.herofincorp.com, website of Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India (NSE) at www.nseindia.com and on the website of RTA i.e. <https://linkintime.co.in>. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from above-mentioned website.

Mr. Devesh Kumar Vasisht, (FCS-8488; CP No. 13700), Managing Partner and/or Mr. Parveen Kumar, (FCS-13411; CP No. 13411), Partner of M/s. DPV & Associates LLP Practicing Company Secretaries, New Delhi (Firm Registration No. L2021DE009500), have been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process through e-voting process in a fair and transparent manner. The Results shall be declared along with the Scrutinizer's Report latest by 05:00 p.m. on Monday, June 09, 2025 at the Registered Office and Corporate Office of the Company and shall also be placed on the Company's website www.herofincorp.com and on the website of MUFG Intime India Private Limited i.e. <https://instavote.linkintime.co.in/> and shall be communicated to the Stock Exchange, where the Company's securities are listed.

Members holding shares in physical form and have not registered their e-mail address can now register the same by writing to the Company at investors@herofincorp.com to enable the Company to register the e-mail address and for receiving the Notice of Postal Ballot and E-Voting instructions. Members holding shares in demat form are requested to register/update their e-mail addresses with their Depository Participant(s) only.

In case of any queries / grievance connected with the voting by postal ballot or electronic voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of <https://in.mpmis.mufg.com/> or contact MUFG Intime at Telephone no.: 022-49186000 or Mr. Shivendra Kumar Suman, Company Secretary & Compliance Officer of the Company, at 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi or at Telephone no. 011-49487150.

By Order of the Board
For Hero Fincorp Limited
Sd/-
Shivendra Kumar Suman
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 08, 2025
Place: New Delhi



Fabtech Technologies Cleanrooms Ltd.

FABTECH TECHNOLOGIES CLEANROOMS LIMITED

Corporate Identity Number: L74999MH2015PLC265137

Registered Office: 615, Janki Center, Off. Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai City, Maharashtra, India, 400053.
Website: www.fabtechcleanroom.com **E-Mail:** secretarial@fabtechnologies.com
Telephone No: +91 22 6159 2900

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given to the shareholders of Fabtech Technologies Cleanrooms Limited ("the Company") that, pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), and Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), and other applicable laws, rules and regulations, if any, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company is seeking approval from its Shareholders through postal ballot for passing the following special resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated May 05, 2025 ("Postal Ballot Notice") by remote e-voting only ("remote e-voting/ e-voting"):

Sr. No.	Particulars
1.	Approval of Fabtech Technologies Cleanrooms Limited - Employee Stock Option Scheme 2025 ("FTCL-ESOS 2025")
2.	Approval for Extension of Fabtech Technologies Cleanrooms Limited - Employee Stock Option Scheme 2025 ("FTCL - ESOS 2025") to the Employees of the Existing and/or Future Subsidiary Company(ies) or Associate Company(ies) of the Company in India or outside India.

In compliance with the MCA Circulars, electronic copies of the Postal Ballot Notice has been sent on May 08, 2025 to all the Shareholders whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("the NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("the CDSL") (collectively referred to as "Depositories") and whose e-mail ids are registered with the Company/ Depositories/ MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("RTA") as on Friday, May 2, 2025 ("Cut-off date"). The requirement of sending physical copies of the Notice has been dispense.

If you have not registered your email address with the Company/ Depository Participant(s)/ RTA, you may please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by your DP.

Shareholders may note that the Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.fabtechcleanroom.com and websites of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Shareholders may download the Postal Ballot Notice from the above mentioned websites. Any member seeking the electronic copy of this notice may also write to us at secretarial@fabtechnologies.com.

The Company is pleased to provide its Shareholders the facility to exercise their right to vote on the resolution contained in the Postal Ballot Notice by remote e-voting facility. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. The detailed procedure of remote e-voting has been provided in the Postal Ballot Notice including the period mentioned below for casting of votes by Shareholders:

Commencement of e-voting	Friday, May 9, 2025 at 9:00 A.M.
End of e-voting	Saturday, June 7, 2025 at 05:00 P.M.

The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and voting shall not be allowed beyond the said time and date. Once the vote on a resolution is cast by the Shareholder, they shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

All documents referred to in the Notice will be available for electronic inspection without any fee by the Members from the date of dispatch of the Notice up to Saturday, June 7, 2025. Members seeking to inspect such documents can send an email to the Company Secretary at secretarial@fabtechnologies.com.

The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to the paid-up equity shares registered in the name of Shareholder/ Beneficial owner as on the cut-off date. A person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The Board of Directors ("the Board") of the Company have appointed Ms. Rachana Shanbhag (COP No. 9297) failing her Ms. Surbhi Dubey (COP No. 26791), Practicing Company Secretaries and Designated Partners of M/s. RHS & Associates, a Practicing Company Secretaries, as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Instructions for e-voting:

(a) The Notice is being sent to the shareholders of the Company whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from the Depositories as on cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

(b) A person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote on the Resolution set forth in the Notice.

(c) The remote e-voting period will commence on Friday, May 9, 2025 at 9:00 A.M. and ends on Saturday, June 7, 2025 at 05:00 P.M. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter by the RTA, and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

(d) During this period, Members of the Company as on cut-off date holding shares in physical or in dematerialised form, may cast their votes through remote e-voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be modified subsequently by such Members.

(e) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Suketh Shetty, NSDL official, at evoting@nsdl.co.in or write at NSDL, 4th floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 or send a request at secretarial@fabtechnologies.com.

The results of remote e-voting will be declared on or before Tuesday i.e., June 10, 2025. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website at www.fabtechcleanroom.com and websites of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date for e-voting i.e., Saturday, June 7, 2025.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice and in particular the procedure of casting vote through remote e-voting.

For Fabtech Technologies Cleanrooms Limited
(Formerly known as Fabtech Technologies Cleanrooms Private Limited)
Sd/-
Amjad Adam Arbani
Director & CFO
DIN: 02718019

Place: Mumbai
Date: May 8, 2025



IIFL Finance Limited

CIN: L67100MH1995PLC093797
Registered Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane – 400604
Tel: (91-22) 4103 5000 • **Fax:** (91-22) 2580 6654
E-mail: shareholders@iifl.com • **Website:** www.iifl.com



Scan the QR code to view complete financial results

EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	Mar 31, 2025 (Audited)	Dec 31, 2024 (Unaudited)	Mar 31, 2024 (Audited)	Mar 31, 2025 (Audited)	Mar 31, 2024 (Audited)
Total Revenue from Operations	2,591.25	2,442.58	2,853.80	10,210.90	10,249.76
Net Profit / (Loss) for the Period / Year (Before Tax and Exceptional Items)	309.47	101.04	553.69	1,293.51	2,571.91
Net Profit / (Loss) for the Period / Year Before Tax (After Exceptional Items)	309.47	101.04	553.69	707.01	2,571.91
Net Profit / (Loss) for the Period / Year After Tax (After Exceptional Items)	251.36	81.71	430.63	578.16	1,974.22
Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period / Year [Comprising Profit for the Period / Year (After Tax) and Other Comprehensive Income (Loss) for the Period / Year (After Tax)]	241.71	84.23	424.08	564.89	1,956.92
Paid up Equity Share Capital	84.90	84.90	76.31	84.90	76.31
Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Current / Previous Year				12,327.06	10,560.19
Securities Premium Account	4,721.93	4,725.53	3,450.91	4,721.93	3,450.91
Net Worth	12,139.54	11,944.46	10,357.16	12,139.54	10,357.16
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	51,068.02	45,527.34	46,674.20	51,068.02	46,674.20
Debt Equity Ratio	3.66	3.31	3.87	3.66	3.87
Earnings Per Share (Face Value of ₹2/- each) (For continuing and discontinued operations)					
- Basic	4.89	0.96	9.79	9.07	46.29
- Diluted	4.85	0.95	9.68	8.73	45.71
Capital Redemption Reserve	230.11	230.36	230.11	230.11	230.11
Debenture Redemption Reserve	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Notes: 1. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules framed there under and other accounting principles generally accepted in India and in accordance with the requirement of Regulations 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. 2. The above consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2025, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at its meeting held on May 08, 2025. The Joint Statutory Auditors of the Company have carried out the Audit of the aforesaid results and have issued an unmodified opinion. 3. The key data relating to audited standalone financial results of IIFL Finance Limited is as under: (₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
	Mar 31, 2025 (Audited)	Dec 31, 2024 (Unaudited)	Mar 31, 2024 (Audited)	Mar 31, 2025 (Audited)	Mar 31, 2024 (Audited)
Total Revenue from Operations	1,138.33	939.92	1,385.75	4,066.17	4,604.76
Profit / (Loss) Before Tax and Exceptional Items	50.20	20.98	171.96	35.73	729.98
Profit / (Loss) Before Tax and After Exceptional Items	50.20	20.98	171.96	(550.77)	729.98
Profit / (Loss) After Tax	38.42	15.97	165.03	(409.57)	584.78
Total Comprehensive Income / (Loss)	29.66	28.69	162.93	(412.63)	576.84

4. The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website viz. www.iifl.com. 5. For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website viz. www.iifl.com.

Date : May 08, 2025
Place : Mumbai

By order of the Board
For IIFL Finance Limited
Sd/-
Arun Kumar Purwar
Chairperson and Non Executive Director
DIN: 00026383

epaper.financialexpress.com

New Delhi

Signal Lost with Airtel, Tata Seeks New DTH Connection

Talks between the two had collapsed over differences on valuation—Tata wanted ₹7,000 crore while Airtel pegged it at less than ₹5,000 crore

Kalyan Parbat & Kala Vijayraghavan

Kolkata | Mumbai: Tata Group is set to renew the hunt for new buyers for Tata Play direct-to-home (DTH) business after the abandonment of talks with Bharti Airtel to merge their DTH businesses due to sharp differences over valuation, people familiar with the matter told ET.

The Tata Group was pushing for a valuation of about ₹7,000 crore for Tata Play in the proposed merger with Bharti Telemedia—an Airtel unit that owns Airtel Digital TV, the people said. However, Airtel had pegged the valuation of Tata's

DTH business significantly lower, at less than ₹5,000 crore, which was a key deal breaker, they added.

"The Tata Group reckoned it has a strong brand in Tata Play, which is India's largest

DTH services player, and merited a higher valuation," said one of the persons cited above.

Airtel is also believed to have walked away from the DTH merger deal as it has recently rolled out internet-based IPTV services—seen as an emerging opportunity for converting its 120 million-odd cable TV households, most of whom are still to subscribe to streaming services.

Airtel as a 5G mobile operator is also investing heavily in 5G-based fixed wireless access (FWA) services and in high-speed fibre broadband rollouts, which would allow it to offer live streaming services on digital platforms, the people said.

Back In Play

Tata and Airtel's DTH merger talks failed due to valuation differences

Tatas want to exit DTH business

Tata-Airtel deal would have been second biggest in DTH space in about a decade

Tatas see DTH biz as non-strategic but feel Tata Play is strong brand, deserving higher valuation

SHIFT IN FOCUS

DTH not critical to Airtel as it's betting on IPTV, fibre broadband, 5G-FWA

Airtel equipped to deliver video/live streaming via digital platform/DTH services

Tata Sons owns 70% of Tata Play, valued at around \$1B after buying Temasek's stake in 2024

Tata Sons and Bharti Airtel did not respond to queries.

"Differences over valuations may have been the key reason why Airtel and the Tatas scrapped plans to merge their DTH businesses," said Rohan Dhamija,

head (India & Middle East) at management consulting firm Analysys Mason.

"But Airtel also possibly didn't see much value in merging Bharti Telemedia with Tata Play given its focus on FWA and access to high-speed fibre broadband networks, which enables it to offer the gamut of video and live streaming services on digital platforms and reduces its dependence on linear pay TV platforms."

He added that Airtel's recent launch of IPTV services across 2,000 cities would further reduce its dependence on pay TV platforms.

IPTV, or Internet Protocol Television, is a method of delivering TV content over the internet—also seen as an alternative to mainline cable or satellite TV.

"The compulsion to exit the DTH business was more in case of the Tatas, while Airtel was merely

weighing the pros and cons of merging the DTH businesses, and it ultimately didn't make the cut as DTH is not a core business for Bharti, and as a leading telco with access to a countrywide fibre broadband network and now IPTV services, it is better positioned to dominate the OTT (over the top) aggregation space via its scale and ability to bundle data with content," a second person said.

A Tata-Bharti DTH deal, though, would have marked the second major deal in the DTH space in about a decade, after the Dish TV-Videocoin merger in 2016. It would also have coincided with Reliance Industries and Walt Disney merging Star India and Viacom18 to form JioStar, India's largest media and entertainment company.

Tata Play—originally Tata Sky—began as a joint venture with

Rupert Murdoch's News Corp. The Walt Disney Co. took over the stake when it acquired Murdoch's 21st Century Fox six years ago.

Tata Sons, the holding company of the diversified Tata conglomerate, holds 70% in Tata Play, having reportedly acquired Singapore investment firm Temasek Holding's 10% stake in April 2024 for ₹655 crore, valuing the company at around \$1 billion. Tata Play has over 25 million users.

ET had reported this February that the Tata and Bharti groups were finalising a merger between their loss-making DTH businesses. The deal was expected to bolster Airtel's triple play strategy of bundling telecom, broadband and DTH services. Bharti had confirmed the talks with the Tatas but both parties mutually decided to terminate the discussions earlier this month.

NEW UGC RULE ALLOWS TOP FOREIGN UNIVERSITIES TO 'SET UP IN INDIA'

In a First, US' Illinois Tech to Launch Campus in India

UGC nod at advanced stages for Illinois and Liverpool varisities; Michigan and Purdue also in queue

Anubhuti Vishnoi

New Delhi: Top-rated tech and research varsity, the Illinois Institute of Technology is set to become the first US university to set up an India campus under the new UGC regulations while the US universities of Michigan and Purdue are also lining up for a presence here, ET has learnt.

Likely to follow Illinois Tech's entry is the UK's Liverpool University campus in India, officials in the know confirmed to ET.

Illinois Tech's India campus is first off the block and will come up in Mumbai next year with undergraduate and graduate courses in high tech fields, cross-campus study options and global classroom experiences besides its renowned 'Elevate' program, it is learnt.

While approvals for Liverpool University's India campus are at an advanced stage, developments with respect to a similar campus set up with both Michigan and Purdue universities are also picking pace, ET has learnt.

A prominent American university could also be headed to India for a standalone campus, it is gathered.

Government sources confirmed that its approval processes for a clutch of high ranking foreign universities was in ad-



GLOBAL LEARNING COMES HOME



The UK's University of Southampton was the first foreign varsity to be granted a letter of intent to set up a full-fledged campus in India in August 2024. It is expected to start operations this year

vanced stages.

The entry of Chicago-based Illinois Tech in a major boost to the 'internationalisation' of India's higher education landscape and will bring an array of highly sought after co-

urses to the country. Illinois Tech has already affirmed this week that its Mumbai campus will provide the "same academically rigorous, experiential, and industry-

aligned curriculum as the university's Chicago campuses" besides the famed Elevate program, which guarantees all students access to 'real-world experiences' such as internships, research, competitions, and other opportunities. Courses will be delivered by an internationally recruited faculty, including visiting professors from Illinois Tech's US campuses and faculty with global academic credentials.

"In a bold and historic move, Illinois Institute of Technology (Illinois Tech), Chicago's only tech-focused university, is set to become the first US university to be approved by the University Grants Commission (UGC) to establish an independent degree-granting campus in India. Opening in Fall 2026, the new Illinois Tech, Mumbai campus, will offer a range of undergraduate and graduate programmes in high-demand fields such as computer science, engineering, and business". Illinois Tech has announced in Chicago on May 6 even as UGC is yet to announce its final approval.

The entry of foreign universities via an Indian campus route comes following the University Grants Commission (Setting up and Operation of Campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations of 2023—a new rulebook aimed at facilitating setting up of India-based campus of top-rated foreign universities.

The UK's University of Southampton was the first foreign University to be granted a letter of intent to set up a full-fledged campus in India under the UGC's Regulations in August 2024. It is expected to start operations this year.

YoY Income up 10%

YoY PBT up 26%

YoY PAT up 22%



PU Garments




Handbag




Automotive




Footwear



Furnishing



Marine Upholstery



Accessories

Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaipur, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.

Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN No. L18101RJ1992PLC006952 E-Mail: secr@mayur.biz

Extract of Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2025

(Rs. in Lakhs, except stated)

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	26,211.04	21,161.76	22,757.48	92,086.25	83,482.67
2	Operating Profit (PBDT)	6,456.78	4,998.02	4,799.03	23,180.51	19,068.12
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	5,694.84	4,239.94	3,993.01	20,128.36	15,881.97
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax	4,150.23	3,056.76	3,221.54	14,928.94	12,246.83
5	Total Comprehensive Income for the period	4,183.32	3,090.10	3,149.67	15,091.73	12,226.97
6	Equity Share Capital (of Rs. 5/- each)	2,172.63	2,172.63	2,197.63	2,172.63	2,197.63
7	Other Equity (Reserves)	-	-	-	93,384.56	84,512.42
8	Earning Per Share:					
	- Basic (in Rs.)	9.54	7.05	7.32	34.18	27.86
	- Diluted (in Rs.)	9.54	7.05	7.32	34.18	27.86

Notes: *Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR):

S.No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
1	Turnover	21,418.09	19,492.61	21,610.22	82,020.64	76,424.04
2	Operating Profit (PBDT)	5,620.28	4,859.58	4,765.94	22,043.75	18,659.17
3	Profit before Tax	4,865.21	4,107.93	3,971.16	19,019.54	15,510.46
4	Profit after Tax	3,501.52	2,984.16	3,198.44	14,100.87	11,954.78

*The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year Ended Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Quarterly and Yearly Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges i.e. www.sebiindia.com and www.bseindia.com, and also on Company's website at www.mayuruniquoters.com



For and on behalf of the Board of Directors

Suresh Kumar Poddar
Chairman & Managing Director & CEO
DIN-00022395

Kubota Escorts Kubota Limited

Extract of Audited Standalone And Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025

		₹ In Crores									
Sl. No.	Particulars	Standalone Results					Consolidated Results				
		3 Months ended		Year ended			3 Months ended		Year ended		
		March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2025	March 31, 2024	March 31, 2025	December 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2025	March 31, 2024
		Audited*	Unaudited	Audited*	Audited	Audited	Audited*	Unaudited	Audited*	Audited	Audited
1	Total revenue from operations	2,430.30	2,935.43	2,289.61	10,186.96	9,730.72	2,444.88	2,948.02	2,300.66	10,243.88	9,803.59
2	Net Profit for the period from continuing operations (before Tax and exceptional items)	358.35	380.18	326.64	1,366.59	1,262.14	352.61	377.08	320.71	1,352.68	1,256.43
3	Net Profit for the period from continuing operations before tax (after exceptional items)	331.27	380.18	326.64	1,339.51	1,262.14	350.94	377.08	320.71	1,351.01	1,256.43
4	Net Profit for the period from continuing operations after tax (after exceptional items)	250.71	290.47	248.46	1,110.03	948.03	271.62	287.90	243.41	1,124.06	943.03
5	Net Profit from discontinued operations after tax	46.80	32.73	26.57	140.89	133.59	46.80	32.73	26.57	140.89	133.59
6	Total Net Profit for the Period (continuing and discontinued operations)	297.51	323.20	275.03	1,250.92	1,081.62	318.42	320.63	269.98	1,264.95	1,076.62
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	297.01	323.29	274.52	1,249.27	1,081.72	318.22	320.40	269.31	1,263.60	1,077.36
8	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) after non-controlling interest]	297.01	323.29	274.52	1,249.27	1,081.72	318.22	320.41	269.32	1,263.59	1,077.39
9	Equity Share Capital	111.88	111.88	110.50	111.88	110.50	111.88	111.88	110.50	111.88	110.50
10	Other Equity				10,268.34	9,304.60				10,254.92	9,276.63
11	Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) of ₹ 10 each:										
	(1) Basic (₹)	27.05	29.39	25.05	113.77	95.59	28.96	29.16	24.59	115.04	98.10
	(2) Diluted (₹)	27.04	29.37	25.01	113.70	95.43	28.94	29.14	24.56	114.98	97.93

*Refer note 2

Notes:

1 The above standalone and consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on May 08, 2025.

2 The figures for the quarter ended March 31, 2025 and quarter ended March 31, 2024 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and published year to date figures up to the third quarter of the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024, respectively.

3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same are available on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.escortskubota.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided below:



Escorts Kubota Limited
Phone: 0129-2250222

E-mail: corp.secretarial@escortskubota.com, Website: www.escortskubota.com
Registered Office : 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121 003, Haryana
CIN - L74899HR1944PLC039088

Place : Faridabad
Date : 08/05/2025

For Escorts Kubota Limited

Nikhil Nanda
(Chairman and Managing Director)

शिक्षा ही वो कारगर हथियार है जिसके माध्यम से दुनिया को बदला जा सकता है।
- के.आर. कमलेश

– पी.सी. वर्मा

- के.आर. कमलेश

■ वर्ष 30 अंक 34 ■ मूल्य: ₹ 6.00 ■ पेज: 8

The image shows a vertical strip of a newspaper page. At the top, the masthead 'नौकरी' (Naukri) is visible in large orange letters. Below it, a headline in bold black text reads 'राज्य की विद्ययोग' (Rajya ki Vidyayog). Under the headline is a small photograph of a person, possibly a woman, in a blue uniform. Below the photo, there is a line of text in red and black, which appears to be a sub-headline or a short article snippet. The rest of the strip shows the bottom portion of the newspaper page with some text and a small table or list.

समय 2082 बैशाख शुक्ल पक्ष द्वयोरी राष्ट्रियता : प्रातः 10:30 से 12:00 बजे तक सूचिका: 5.43 बजे और सुनक्ति : 7.04 बजे	
05:43 AM to 07:23 AM	चर
07:23 AM to 09:03 AM	लाभ
09:03 AM to 10:43 AM	अमृत
10:43 AM to 12:23 PM	काल
12:23 PM to 02:04 PM	शुभ
02:04 PM to 03:44 PM	रोग
03:44 PM to 05:24 PM	उद्देग
05:24 PM to 07:04 PM	चर
07:04 PM to 08:24 PM	लाभ
08:24 PM to 09:44 PM	काल
09:44 PM to 11:03 PM	लाभ

[illegible]

सरकार के इस दिवालिवायपन के लिए कौन जिम्मेदार है? पता नहीं पर फिर भी सरकारी काम-चलायों का एक एक सरकारी पर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने एवं अन्य 37 मांगों को पूरी करने का दबाव डाल रहा है पर उन्हें कैसे पूरा किया जाये कौन नहीं जानता।

अगर हम देश के अन्य राज्यों की ताजा वित्तीय स्थिति का बारिकी से विश्लेषण करें तो पायेंगे कि कम से कम एक दर्जन राज्य उधार के ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, अतः आज नहीं तो कल उन्हें भी तेलंगाना सरीखी चुनौती का मुकाबला करना होगा।

Welfare State Capitalism यानि **उधार लेकर धी घीने की** थीम पर चलने वाले नये विकास के दौर में चूँकि उसी सरकार को सफल सरकार माना जाता है जो अपने पीछे भारी-भरकम या चुका नहीं पाने जितना उधार छोड़ कर जाएँ और यह सही है तो फिर राजनेताओं एवं नीति निर्धारकों का भरोसा भविष्य में तेजी से कम हो नहीं होना चाहिये वरन साप्ताहार कारोबारि सरकारी से लेन-देन या कारोबार करने पर किस तरह सतर्कता बरतते हुए विकास की गति पर अवरोध पैदा करते हैं ऐसा अहसास हमें करीब से होना चाहिये।

गति प्रसादन रूप्ये के इस कमाल को हम भरोसे के भ्रमण का काल भी हसिलिय कह सकते हैं कि इस दौर में जिस **व्यवस्था, संस्थान एवं व्यक्ति** को पूर्व में सर्वाधिक भरोसे वाला माना जाता हो उसी का भरोसा तेजी से सिमटते हुए या अन्यत्र स्थान पर लिफ्ट होते नजर आते हैं और ऐसा होता है तो उससे भविष्य में आर्थिक अस्थिरता एवं वित्तीय अस्थिरता की व्यापकता में बढ़ोतरी देखने के साथ हम अहसास करेंगे कि **सरकारी बड़ों न भैया सबसे बड़ा रूपैया** है।

For suggestion/feed back contact
jskothari@nafanuksan.com

For suggestion/feed back contact
jskothari@nafanuksan.com

संस्थान फिल्म में जयकांत शिखर (प्रकाशराज) का वो डायलॉग बल होना होगा...शॉक लगा! डायलॉग वही है लेकिन कैरेक्टर बल गए हैं। शिखर ने वाले प्रेसिडेंट टॉप हैं और शॉक लगा है भारत को। पंद्रह दिन की शांति के बाद टुंग के एन। बयान ने भारत में शांकेवेव (झटका तरंग) दिगार कर दी। सोमवार को टुंग ने फार्मा इंफोस्ट्रस पर टैरिफ लगाने की प्लान की चर्च करते हुए कहा कि...।विदेन नेकेस्ट टू वीक...यानी दो सप्ताह में ही फैसला हो जाएगा। टुंग ने यह बयान अमेरिका में दावा मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक एजेन्सिज ऑर्डर पर हस्ताक्षर करते हुए दिया। टुंग ने संकेत दिया है फार्मा इंफोर्ट पर 200 परसेंट टैरिफ लगाया जा सकता है। टुंग के इस प्लान की फार्मरिंग लाइन में यूरोप और भारत है। भारत के इस प्लान का एक्सपोर्ट 25-30 परसेंट टैरिफ को होता है। साथ में लगा टैरिफ को खदेने से पता चलता है कि वित्त वर्ष 17 में भारत का फार्मा एक्सपोर्ट 16.8 बिलियन डॉलर था जो 30 वीं वर्ष 25 में करीब दोगुना होकर 31.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान अमेरिका को भारत की दवाओं का एक्सपोर्ट 5.60 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8.95 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

ट्रंप की चिंता क्या है: ट्रंप ने कहा है कि वह खिड़ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अमेरिका जरूरी दवाएं खुद बनाना चाहता है। आपको याद होगा कोविड के दौरान अमेरिका में पेंसिल्टामोल को किल्लत हो गई थी और भारत ने अपनी जरूरत को देखते हुए इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। तब ट्रंप थे भारत को धमकाने तक पर उतर आए थे।

भारत का मामला : भारत

India Pharma Exports		To US
Year	Total Billion \$	Billion in \$
FY 17	16.8	5.60
FY18	17.3	5.96
FY19	19.2	6.00
FY20	20.7	6.20
FY21	24.4	7.10
FY22	24.6	7.55
FY23	25.4	7.55
FY24	27.8	7.85
FY25	30.47	8.95

Year	Crore Rs.
FY19	24850.07
FY20	24171.78
FY21	28528.97
FY22	35248.63
FY23	36229.15
FY24	37721.88

सकारने भी एपीआई (एक्टिव फार्मा इंटीग्रिडिंट्स) यानी दवा बनाने के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की अनुसंधान एपीआई स्क्रीम शुरू कर रहे हैं। टेवल 2 के अनुसार जित वष 2019 में भारत का एपीआई इंपोर्ट 24850 करोड़ रुपये का था जो अगले पांच वर्षों में जित वष 24 तक करीब डेढ़ गुना होकर 37721.88 करोड़ रुपये तक होगा।

रैंक	बिलियन \$	बिलियन में \$	गया। सरकार की चिंता यह है कि इसमें 65-70 परसेंट इंपोर्ट चीन से होता है और चीन के साथ हमारे रिश्ते कभी भी परती से उतर सकते हैं। और ऐसा हो गया तो चीन देश में कभी भी दवाओं
1	5.60		
2	5.96		
3	6.00		
4	6.20		
5	7.10		
6	7.55		
7	7.55		
8	7.85		
9	8.95		

की किल्लत पैदा कर सकता है।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका खुद अपनी दवाएँ बनाएगा। ट्रंप के एक्सेक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है अमेरिका प्रशासन को अमेरिका में दवा मैनुफैक्चरिंग को फास्टेक्व प्र शुरू करा होगा। ट्रंप ने एफडीए (फेडरल ड्रग अथॉरिटी) को दवा मैनुफैक्चरिंग के लिए एप्रूवल जल्दी करने के लिए कहा है। साथ ही विदेशी दवा प्लांट्स को अमेरिका में दवा एक्सपोर्ट करने हैं उनके सप्रेशन इस्पेक्शन बढ़ाने और विदेशी दवा कंपनियों के लिए अमेरिकान फीस बढ़ाने का भी फैसला किया है। ट्रंप ने ईपीए (एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी) को दवा फैक्ट्रियों को जल्दी क्लीयरेंस देने के लिए भी कहा है। उनका मानना है कि बहुत फास्टेक्व में काम होगा तभी भी अमेरिका को फार्मा इंडस्ट्री तैयार करने में 10 साल लग जाएंगे और यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है।

अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अप्रैल में फार्मा इंपोर्ट पर सैक्शन 232 के तहत जांच शुरू की है जिसके जरिए दवा इंपोर्ट पर टैरिफ तय किया जाएगा।

हालांकि एनेलिसर और ट्रप के आलोचकों का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री को वापस लाना आसान नहीं है। क्योंकि अमेरिका में बनी दवाओं के लिए भी एपीआई इंग्रेडेंट करने होंगे जिन पर टैरिफ लगाने से वे महंगे पड़ेंगे जिससे दवाएं महंगी हो जाएंगी। वर्ष 2023 में अमेरिका ने 200 बिलियन डॉलर के फार्मा प्रॉडक्ट्स का इंपोर्ट किया था जिसमें 73 परसेंट शेयर यूरोप के देशों का था। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट आयरलैंड, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के किया गया था। अमेरिका में एंड जैक को रिपोर्ट करती है यदि ट्रप एंडग्रीमिस्ट्रेशन दवाओं पर 25 परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है तो अमेरिकियों को दवाओं पर सालाना 51 बिलियन डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे जहां दवाएं करीब 13 परसेंट महंगी हो जाएंगी।

नयी दिल्ली@एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) अपील दायर करने में अधिकतम 15 दिन की देरी को ही माफ कर सकता है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति अर महदेवनको को पीठ ने सहित कि दिवाला ऐश्व शोधन अश्वमता कहता (आईबीसी) ने अपील दायर करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए सख्त किया गया निर्धारित की, ताकि सुनिश्चित कि माफ किया जा सके कि दिवाला कार्रवाई को दुष्टयोग समय-सीमा समाप्त हो चुके श्रेष्ठों को वसूली के लिए न किया जाए अपील को माफ करने का मतलब है कि अदालत या प्राधिकरण को अपील या आवेदन दायर करने में देरी को नजरअंदाज करने को अनुमति देना, भले ही वह निर्धारित समय सीमा से परे हो पीठ ने कहा, “धारा 61(2) का प्रावधान स्पष्ट रूप से पुनर्निर्माण एट्टी के अधिकार श्रेष्ठ को आरंभिक 30 दिनों की अवधि से परे केवल 15 दिनों तक की देरी को माफ करने तक सीमित करता है। यहां को अपील स्पष्ट रूप से उन अवधि को समाहित करता है जिसके भीतर ही देरी को माफ किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अपील-न्यायाधिकरण उन सीमा को पार नहीं कर सकता है।” अदालत ने कहा कि आईबीसी के तहत अपीलियों तत् दिवाला समाप्त प्रक्रिया के लिए और न्यायमूर्ति को बनाए रखने के लिए सख्त निर्देशों से स्पष्ट है। यह निर्णय श्रेष्ठों के अधिक कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर आया, जिसमें अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया गया था।

जयपुर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने का अपना आवेदन वापस ले लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है देते हुए काह है ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक और राईयों चेतना का हिस्सा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूनिट जियो स्टूडियोज ने अपना ट्रेडमार्क आवेदन वापस ले लिया है, जिसे एक जूनियर अधिकारी ने अजानाने में दायर किया था। इसमें आगे कहा गया रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके सभी स्टोकोल्हडर्स को ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को

बुराई के खिलाफ भारत की अडिग लड़ाई में हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की गौरवपूर्ण उपरनिधि है। इंडिया फर्स्ट के आदर्श वाक्य के मूल्य हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। आतंकवादी ठिकानों पर भारत की सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई। ऑपरेशन सिंदूर नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे रजिस्टर करने के लिए लोगों में होड़ मच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था। रिलायंस सहित बाकी सभी एलीटों के तलाश 41 के तहत ऑपरेशन सिंदूर के लिए एकसकलस्वित शास्त्र चाहते थे।

मुंबई के खिलाफ, भारत की अडिग लड़ाई में हमारे बहादुर सशस्त्र बलों की गौरवपूर्ण उपस्थिति है। इंडिया फर्स्ट के आदर्श वाक्य के सैन्य हमारी प्रतिक्रियाएं अटूट हैं। आंतकवादियों ठिकानों पर भारत की प्रैक्टिस काव्या और अपराध संहिता के तहत की गई। ऑपरेशन सिद्धि नाम इनाम लोकप्रिय हुआ कि इसे रजिस्टर करने के लिए लोगों में होड़ मच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ऑपरेशन सिद्धि ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया था। रिलायंस सहित भारत की सभी एलीटों के क्लास 41 के तहत ऑपरेशन सिद्धि के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स चाहते थे।

पंजीकृत कार्यालय एवं फैक्ट्री : जयपुर सीकर रोड, गांव जैतपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, 303704 (राजस्थान) भारत
वेबसाइट : www.mayuruniquoters.com ईमेल : secr@mayur.biz टेलीफोन : 91-1423-224001
फैक्स : 91-1423-224420 सीआईएन : एल18101आरजे1992पीएलसी006952

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष समाप्ति के लिए अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	(रुपये लाख में, शेरय व प्रति शेरय डाटा के अलावा)					
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	
		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
1.	परिचालन से कुल आय	26,211.04	21,161.76	22,757.48	92,086.25	83,482.67	
2.	व्याज, कर डेप्रिशिएशन व एमोर्टाईजेशन से पूर्व लाभ	6,456.78	4,998.02	4,799.03	23,180.51	19,068.12	
3.	अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	5,694.84	4,239.94	3,993.01	20,128.36	15,881.97	
4.	अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	4,150.23	3,056.76	3,221.54	14,928.94	12,246.83	
5.	अवधि के लिए कुल आय	4,183.32	3,090.10	3,149.67	15,091.73	12,226.97	
6.	अंश पूंजी : रुपये 5 प्रति शेरय अंकित मूल्य	2,172.63	2,172.63	2,197.63	2,172.63	2,197.63	
7.	अन्य अंश पूंजी (रिजर्व)	-	-	-	93,384.56	84,512.42	
8.	प्रति शेरय आय :						
	मूल: (रुपये में)	9.54	7.05	7.32	34.18	27.86	
	घुलित: (रुपये में)	9.54	7.05	7.32	34.18	27.86	

दूस : सेबी (एलओडीआर) के नियम 47(1) (बी) के अनुसार कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी : (रुपये लाख में, शेयर व प्रति शेयर डाटा के अलावा)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2025 (अनअकेक्षित)	31.12.2024 (अनअकेक्षित)	31.03.2024 (अनअकेक्षित)	31.03.2025 (अकेक्षित)	31.03.2024 (अकेक्षित)
1.	कारोबार	21,418.09	19,492.61	21,610.22	82,020.64	76,424.04
2.	पंचिखान लाभ (व्याज, कर, डेप्रीसिएशन व एमोर्लाइजेशन से पूर्व लाभ)	5,620.28	4,859.58	4,765.94	22,043.75	18,659.17
3.	कर पूर्व लाभ	4,865.21	4,107.93	3,971.16	19,019.54	15,510.46
4.	कर पश्चात लाभ	3,501.52	2,984.16	3,198.44	14,100.87	11,954.78

उपरोक्त जानकारी समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के अंकेषित व्योरेवार वित्तीय परिणामों से उद्गत की गयी है जो कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गयी है। समाप्त तिमाही एवं वित्तीय वर्ष के लिए अंकेषित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.mayuruniquoters.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
मयूर यूपीकोटर्स लिमिटेड वास्ते
हस्ताक्षर
सुरेश कुमार पोद्दार
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN-00022395



Infographic Data:

- YoY Income up 10 %**
- YoY PBT up 26%**
- YoY PAT up 22%**

Product Categories:

- PU Garments** (represented by a brown leather jacket)
- Handbag** (represented by a red handbag)
- Automotive** (represented by a car interior)

